

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 98]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 29 फरवरी 2016—फाल्गुन 10, शक 1937

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 फरवरी 2016

मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक/बी-11/03/2015/14-2, दिनांक 17.11.2015 द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत मौसम रबी 2015-16 हेतु पटवारी हल्का स्तर की अधिसूचना क्रमांक 456, दिनांक 17.11.2015 जारी की गई थी । जारी अधिसूचना में संशोधन करते हुए जिला अशोकनगर, जबलपुर एवं सिवनी की संलग्न संशोधित सूची अनुसार उनके समक्ष दर्शाई गई फसलों के लिये राज्य शासन द्वारा परिभाषित क्षेत्र घोषित किया जाता है । मौसम रबी वर्ष 2015-16 के लिये जिला अशोकनगर, जबलपुर एवं सिवनी के पटवारी हल्का स्तर की संशोधित अधिसूचना जारी की जाती है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

**राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना रबी 2015-16 हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्कों की  
पूरक संशोधित सूची**

मौसम	रबी	वर्ष	2015-16	100 हैक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची				
जिला	तहसील	रा.नि.मं. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	राई-सरसों
अशोकनगर	अशोकनगर	कचनार	00045	बरखेडा छज्जू	गेहूं सिंचित	—	चना	—
			0001	महोली	गेहूं सिंचित	—	चना	—
	चन्देरी	चन्देरी	0002	लिधोरा मुंजप्ता	गेहूं सिंचित	—	चना	—
			0001	ईदौर	गेहूं सिंचित	—	चना	—
	ईसागढ़	ईसागढ़	0002	सर्करा	गेहूं सिंचित	—	चना	—
			0003	कदवाया	गेहूं सिंचित	—	चना	—
			0004	बख्तर	गेहूं सिंचित	—	चना	—
			0005	भैसरवास	गेहूं सिंचित	—	चना	—
			0006	अनघोरादीवान	गेहूं सिंचित	—	चना	—
			0007	बल्देवगढ़	गेहूं सिंचित	—	चना	—
			0008	मनहेटी	गेहूं सिंचित	—	चना	—
			0009	केशोपुर	गेहूं सिंचित	—	चना	—
			0010	सिरनी	गेहूं सिंचित	—	चना	—
			0011	सिलपटी	गेहूं सिंचित	—	चना	—
			0012	छपरा	गेहूं सिंचित	—	चना	—
			0013	महुअन	गेहूं सिंचित	—	चना	—
			0014	गनेशखेडा	गेहूं सिंचित	—	चना	—
			0015	फुटेरा उर्फ नयागांव	गेहूं सिंचित	—	चना	—
			0016	डेगामोचार	गेहूं सिंचित	—	चना	—
			0017	गहोरा	गेहूं सिंचित	—	चना	—
			0018	जंघार	गेहूं सिंचित	—	चना	—
			0019	पारसोल	गेहूं सिंचित	—	चना	—
			0020	भेलवासा	गेहूं सिंचित	—	चना	—
			0021	मानकचोक	गेहूं सिंचित	—	चना	—
			0022	तिगरा	गेहूं सिंचित	—	चना	—
			0023	कोहरवास	गेहूं सिंचित	—	चना	—
			0024	भरौली	गेहूं सिंचित	—	चना	—
			0025	आनदपुर	गेहूं सिंचित	—	चना	—
			0026	आकलोन	गेहूं सिंचित	—	चना	—
			0027	कुलवार	गेहूं सिंचित	—	चना	—
0028			ईसागढ़	गेहूं सिंचित	—	चना	—	
0029	मामौन	गेहूं सिंचित	—	चना	—			
0030	दयालपुर	गेहूं सिंचित	—	चना	—			
0031	सारसखेडी	शंकरपुर	गेहूं सिंचित	—	चना	—		
0032	श्यामाटोरी	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	—			
0033	ढाकोनी	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	—			
0034	लहिदपुर	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	—			
0035	नरसूखेडी	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	—			

मौसम	रबी	वर्ष	2015-16	100 हैक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची				
जिला	तहसील	रा.नि.मं. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	राई-सरसों
			0036	खमखेड़ी	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			0037	सारसखेड़ी	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			0038	पचलाना	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			0039	बमनाबर	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			0040	भगवानपुर	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			0041	खिरियादेवत	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			0042	पिपरोदा	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			0043	पिपरेसरा	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			0044	परासरी धुरा	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			0045	धुरा	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			0046	कन्हेरा	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			0047	बमूरिया नई	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			0048	महाना	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	-	-
			0049	रुहाना	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			0050	राजतला	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			0051	फूटेरा पछार	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			0052	हिनोतिया फूट	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			0053	छीरखेड़ा	गेहूं सिंचित	-	-	-
			0054	सेमरखेड़ी	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			0055	पाकरोड	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			0056	जनौदा	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			0057	वायवैनी	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			0058	पाठखेड़ा	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			0059	हैदर	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	-	-
	मुगावली	मुगावली	0046	बरवाह माधव	गेहूं सिंचित	-	चना	-
		बहादुरपुर	0075	जारोली छुबयाई	गेहूं सिंचित	-	चना	-
	शाढोरा	शाढोरा	0001	बरखेडानई	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			0002	पीपरी	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			0003	सिरसीनई	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			0004	उमरी	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			0005	किरौदा	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			0006	वायंगा	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			0007	बगुल्या	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			0008	म्यापुर	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			0009	रेंझा	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			0010	चिरोली	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			0011	गता शाढोरा	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			0012	पीलीघटा	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			0013	पहाड़ा	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			0014	करख्या	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			0015	शाढोरा	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-

मौसम	रबी	वर्ष	2015-16	100 हैक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची				
जिला	तहसील	रा.नि.मं. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	राई-सरसों
			0016	बमूरिया	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			0017	सेमरी शाहवाद	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			0018	सेजी	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			0019	पदमघटा	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			0020	कुदोरा	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			0021	सडूमरा	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			0022	काछीबामोरा	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			0023	राजेवामोरा	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			0024	अखाईकृष्ण	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			0025	बामोरीताल	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			0026	अमोदा	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			0027	मढीकानूनगो	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			0028	सतउखेडी	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			0029	झीला	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			0030	ककराई	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			0031	जलालपुर	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			0032	मोहरी ज्ञान	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			0033	मथनेर	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			0034	ककरू आराय	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			0035	भैंसरवास	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
	नईसराय	नईसराय	0001	घुरवारकला	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			0002	रांवसरजागीर	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			0003	अखाईघाट	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			0004	पौरुखेडी	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			0005	कालाबाग	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			0006	भैंसा	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			0007	डुगासरा	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			0008	देपालखेडी	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			0009	रुसल्ला बुजुर्ग	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			0010	नईसराय	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			0011	छापर	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			0012	मेहमूदा	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			0013	ज्ञानपुर	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			0014	कांकडा	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			0015	बीसोर	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			0016	सीहोर	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			0017	अमरोद सिंगराना	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			0018	सींगाखेडी	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			0019	कडेसरा	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			0020	अजलेश्वर	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			0021	घटावदा	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-

मौसम	रबी	वर्ष	2015-16	100 हैक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची				
जिला	तहसील	रा.नि.मं. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	राई-सरसों
			0022	पिपरील	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			0023	मढीमहिदपुर	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			0024	महिदपुर	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			0025	कुरायला	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			0026	सांदोह	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			0027	देरखा	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
जबलपुर	जबलपुर	बरगी	0027	तिरखारी	-	-	चना	-
			0051	चौरई	-	-	चना	-
	कुंडम	इमलई	0034	लहसर	गेहूं सिंचित	-	चना	-
			0035	टिकरिया	-	-	चना	-
		कुंडम	0058	सहदरा	-	गेहूं असिंचित	-	-
	पाटन	कटंगी	0033	काकरखेडा	गेहूं सिंचित	-	चना	-
	सिहोरा	मझगांवा	0041	छनगवां	गेहूं सिंचित	-	-	-
			0042	कुम्ही सतधारा	गेहूं सिंचित	-	-	-
			0043	देवरी	गेहूं सिंचित	-	चना	-
			0044	बुढरा	गेहूं सिंचित	-	-	-
	मझौली	मझौली	0038	इन्द्राना	गेहूं सिंचित	-	चना	-
		पोडा	0056	हरसिंधी	गेहूं सिंचित	-	-	-
			0066	दर्शनी	गेहूं सिंचित	-	चना	-
	शहपुरा	पिपरियाकला	0011	कूटरी	-	-	चना	-
		शहपुरा	0035	रमखिरिया	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			0039	घुन्सौर	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			0047	बिलखरवा	-	गेहूं असिंचित	चना	-
		चरगवां	0074	बडखेरा (गगई)	गेहूं सिंचित	-	चना	-
	पनागर	पनागर	0013	लीटी	गेहूं सिंचित	-	चना	-
		महाराजपुर	0067	बघौड़ा	गेहूं सिंचित	-	चना	-
सिवनी	सिवनी	सिवनी 2	103	भैरोगंज	गेहूं सिंचित	-	-	-
		भोमा	47	थांवरी	-	गेहूं असिंचित	-	-
			80	झीलपिपरिया	-	गेहूं असिंचित	-	-
	केवलारी	केवलारी	28	छींदा	-	गेहूं असिंचित	-	-
	लखनादौन	धूमा	21	धनककडी	गेहूं सिंचित	-	-	-
			28	बैगापिपरिया	गेहूं सिंचित	-	-	-
			29	केवलारी	गेहूं सिंचित	-	-	-
			37	सनाईडोंगरी	गेहूं सिंचित	-	-	-
		आदेगांव	47	गौराबीबी	गेहूं सिंचित	-	-	-
			58	सागर	गेहूं सिंचित	-	-	-
	घंसौर	घंसौर	67	केदारपुर	-	गेहूं असिंचित	-	-